



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 757) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना  
19 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(देव0)-10-11/2000/1150—श्री फणीन्द्र नाथ सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, देवधर सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा रामूडिह बौध निर्माण योजना सं0-01/97-98 में बरती गयी अनियमितताओं को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त, उनके विरुद्ध प्रपत्र—“क” गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं0-739 दिनांक 4.7.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए सरकार द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्री फणीन्द्र नाथ सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, देवधर सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग, बिहार को दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
श्याम कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 757-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>